



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शाके 1941-सितम्बर 16, 2019
Bhadra 25, Monday, Saka 1941-September 16, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 13, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/10057 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Pipar City has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Pipar City. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगरपालिका पीपाइ शहर (जोधपुर) राज.

प्रोफार्मा "क"

क्र.सं.	वार्ड संख्या	वार्डों के सीमांकन का विवरण
1	1	पीडब्लूडी ऑफिस से जोधपुर जाने वाली सड़क की बायीं बस्ती सम्मिलित करते हुए पुखराज चौधरी की फैक्ट्री तक, पुखराज चौधरी की फैक्ट्री से दक्षिण में चलते हुए सांखलों का बेरा सम्मिलित करते हुए हस्तीराम के मकान को सम्मिलित करते हुए नदी तक यहां से पूर्व में चलते हुए गूदा वालो का जाव तक यहां से उत्तर में चलते हुए गूदा वाले जाव को दायीं ओर छोड़ते हुए लालजी के मकान को बाईं ओर सम्मिलित करते हुए पूर्व में चलते चलते नवोड़ा बेरा को छोड़ते हुए चैनाराम सोलंकी के मकान को छोड़ते हुए, अदूणिया बेरा को छोड़ते हुए मोहनलाल सांखला के मकान तक यहां से सीधे चलते चलते पीडब्लूडी ऑफिस तक ।
2	2	जोधपुर रोड से विशनाराम जी सांखला के मकान को पूर्वी की ओर छोड़ते हुए हेमजी माली के मकान को पश्चिमी की ओर सम्मिलित करते हुए दक्षिणी की ओर बढ़ते हुए जो रास्ता हापुराम, जोगारामजी माली के मकान से मैदानिया का वर्षादी नाला होते हुए नदी तक जाता है, इसके पश्चिमी मकानात सम्मिलित करते हुए

		<p>नदी से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सोलंकियों का बेरा पीपाड़ सरहद तक उतरी और चलते हुए जोगेश्वर मन्दिर, कबूतरां का चबूतरा कनजी ठेकेदार का मकान, जोगेश्वर मन्दिर से उतरी और चलते हुए पीपाड़ सरहद तक भाटियों की खेळी से पूर्वी मकानात एवं आबादी क्षेत्र सम्मिलित करते हुए भाटियों की खेळी से पूर्वी की ओर चलते हुए हजारी बा पाडा वाले का मकान सम्मिलित करते हुए जैनजी सांखला का मकान उतरी और छोड़ते हुए दक्षिणी मकान सम्मिलित रहेंगे, हजारी बा पाडा वाला के मकान से हेमजी माली के मकान तक सभी दक्षिणी मकानात इस वार्ड की परिधी में रहेंगे। जिसमें मैदानिया, सांखलो, चौलावतो, सोलकियों, भाटियों, मदावतों के बेरे सम्मिलित हैं।</p>
3	3	<p>नदी श्मशान घाट से जो रास्ता दक्षिणी दिशा की तरफ चलते हुए कालु व्यापारी के मकान तक पश्चिमी आबादी मकानात सम्मिलित करते हुए कालु व्यापारी के मकान से पश्चिमी तरफ चलते हुए बाबुलाल साटिया के मकान तक उतरी मकानात बाबुलाल साटिया मकान से उतर दिशा में चलते हुए जोजरी नदी तक के पूर्वी मकानात जोजरी नदी से पूर्वी की चलते हुए मालियों के श्मशान घाट तक के दक्षिणी मकानात इस वार्ड सीमा में रहेंगे एवं खाखीजी की बगेची से पूर्वी की ओर चलते हुए महेन्द्र पुत्र प्रतापराम खटीक के मकान होते हुए दक्षिण दिशा चलते हुए सुभाष घाट तक सुभाष घाट से पूर्वी की चलते हुए लाल जी घोसी मकान से मुरलीधर आचार्य की तक के उतरी मकानात सम्मिलित करते हुए मुरलीधर आचार्य की दुकान से उतरी दिशा में चलते हुए कबीर व्यापारी के मकान तक के पश्चिमी मकानात कबीर व्यापारी के मकान से आयचुकी खटीक की दुकान तक दक्षिणी मकानात आयचुकी खटीक की दुकान से दक्षिण की ओर चलते हुए लालजी घोसी के मकान तक इस वार्ड की सीमा परिधी होगी।</p> <p>जिसमें भाकला का बेरा, खटीको का कारखाना, गोकल बेरा, पावटी, गौरवा जाव, व्यापारियों की बास, इदरीस जी गली, खटीको का बास अचार्यों व कुम्हारो के मकान इसमें शामिल होगी।</p>
4	4	<p>रेल्वे अण्डरब्रीज फाटक के पास से भाकरराम चौधरी के मकान से उतरी दिशा चलते हुए जोजरी नदी तक जोजरी नदी तक सम्पूर्ण चौथीणा बेरा के मकानात सम्मिलित रहेंगे तथा सुलेमान सिन्धी के मकान से पूर्वी ओर चलते हुए गनी जी मास्टर के मकान होते हुए हजरत मीरशाह जी दरगाह होते हुए अयुब सोरगर के मकानात उतरी दिशा मकानात अयुब सोरगर के मकान उतरी दिशा चलते हुए पूर्वी आबादी को छोड़ते हुए सुभाष घाट तक पश्चिमी मकानात तक पश्चिमी मकानात व आबादी क्षेत्र इस वार्ड सीमा की परिधी में रहेंगे</p> <p>जिसमें अग्निशमन कार्यालय, ईदगाह, सांपा सरोवर, हजरत मीरशाह दरगाह, बाबा आश्रम, पुलिस चौकी, पंजाब नेशनल बैंक, चौथीणा बेरा सम्मिलित रहेंगे।</p>
5	5	<p>कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग पेट्रोल पम्प से दक्षिणी ओर चलते हुए यूको बैंक, एक्सीस बैंक को व्यास जी का गोदाम पश्चिमी की सम्मिलित करते हुए कब्रिस्तान</p>

		<p>को पूर्वी की ओर छोड़ते हुए दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए हकीम लाईनमैन के मकान को सम्मिलित करते हुए हकीम लाईनमैन के मकान से पश्चिमी की ओर मुड़ते हुए उतरी मकानात को सम्मिलित करते हुए नम्बर 2 स्कूल के मुख्य गेट तक, गेट से दक्षिणी और मुड़ते हुए नं. 2 स्कूल को सम्मिलित करते हुए स्कूल के कॉर्नर से रेल्वे लाईन से उतर की ओर चलते हुए साटियों की बस्ती, खटीको की बस्ती को सम्मिलित करते हुए आशापुरा माताजी मन्दिर तक पश्चिमी मकानात सम्मिलित करते हुए पूर्वी दिशा चलते हुए समाज कल्याण विभाग को सम्मति करते हुए साबीर पुत्र कालूजी व्यापारी के मकान होते हुए दक्षिणी मकानात से मेहरू खां सिन्धी मकान होते हुए पश्चिमी मकानात सम्मिलित करते हुए कॉपरेटिव मार्केटिंग पेट्रोल पम्प तक इस वार्ड की सीमा की परिधी रहेगी ।</p> <p>जिसमें पेट्रोल पम्प, यूको बैंक, एक्सीस बैंक, व्यासजी गोदाम, नं. 2 स्कूल, खेल मैदान, खटीको की स्कूल, चौहानों का बेरा, साटिया बस्ती, आशापुरा माताजी मन्दिर, समाज कल्याण विभाग, खटीको का बास, जुलाहों का बास, व्यापारियों का बास, सिन्धियों का बास, व्यापारियों की मस्जिद, मोमीन पुरा, आदि सम्मिलित रहेंगे।</p>
6	6	<p>टांसफार्मर गणपति चौराया से पूर्वी की ओर चलते हुए विजय सर्कल चौराया प्रमोद मार्केटिंग को सम्मिलित करते हुए विजय सर्कल से रेल्वे स्टेशन की ओर मुड़ते हुए पश्चिमी की ओर चलते हुए दक्षिणी आबादी को छोड़ते हुए उतरी आबादी को सम्मिलित करते हुए रामदेव मन्दिर तिरूपति बालाजी मन्दिर को सम्मिलित करते हुए रेल्वे स्टेशन से कैलाश जी होटल को सम्मिलित करते हुए रेल्वे लाईन तके सहारे चलते चलते हुए खेल मैदान तक खेल मैदान को उतरी दिशा में छोड़ते हुए पूर्वी की ओर मुड़ते हुए पूर्वी की तरफ चलते चलते दक्षिणी मकानात सम्मिलित करते हुए खेल मैदान व न.2 स्कूल को उतरी ओर छोड़ते हुए पारस विशनोई के मकान को सम्मिलित करते हुए पुनः टांसफार्मर तक इस वार्ड सीमा की परिधी रहेगी।</p> <p>जिसमें तिरूपति बालाजी मन्दिर, रामदेवजी मन्दिर, प्रिन्स स्कूल, महेश केमिकल, कुम्हारों का बास सम्मिलित रहेंगे।</p>
7	7	<p>नरपतजी सांखला मकान होते हुए पन्नालाल भाटी के मकान तक पश्चिमी मकानात, पन्नालाल भाटी मकान से रेल्वे अण्डरब्रिज होते हुए खेताराम भाटी के मकान पूर्व दिशा में सम्मिलित करते हुए बोयल रोड दक्षिणी की ओर बढ़ते हुए चौकीन ढाणी को पीपाड़ सरहद तक सम्मिलित करते हुए खाखीजी बावड़ी से पुनः पीपाड़ शहर की उतरी दिशा में बढ़ते हुए पश्चिमी मकानात शिव शक्ति स्टोन को सम्मिलित करते हुए किशोर जी साद बम्ब महादेव प्याऊ तक प्याऊ सम्मिलित करते हुए पुनः अण्डर ब्रिज से होते हुए रेल्वे स्टेशन रोड़ गांधी के प्लोट तक गांधी प्लोट से रामदेव चौराया होते हुए नरपत जी सांखला मकान तक इस वार्ड सीमा की परिधी रहेगी। जिसमें नन्दनवन कॉलोनी, कृष्णा मन्दिर के सामने</p>

		गली, भाटियों के घर, चौकीन ढाणी, अण्डर ब्रिज, रेल्वे स्टेशन रोड़ आदि सम्मलित रहेगे।
8	8	चौतीणा बेरा रेल्वे फाटक से जो रास्ता पश्चिम की और मयावाला बोदला बेरा होते हुए छैली नाडी तक जाता है, उसके उतरी दिशा व दक्षिणी क्षेत्र को सम्मलित करते हुए छैली नाडी तक, छैली नाडी से जीएसएस व सरकारी स्कूल पीपाड़ सरहद तक सम्मलित करते हुए पुनः पूर्वी की ओर बढ़ते हुए दक्षिणी व उतरी मकानात सम्मलित करते हुए हनुमानजी का मन्दिर तक सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र तथा हनुमान मन्दिर से छिन्दिलिया बेरा, गहलोतों के बेरे होते हुए मलाराम के मकान तक, मलाराम के मकान से उतरी दिशा की ओर बढ़ते हुए पश्चिमी मकानात को सम्मलित करते हुए पूर्वी मकानात को छोड़ते हुए वापस चौतीणा बेरा फाटक तक इस वार्ड सीमा की परिधि रहेगी। जिसमें मयावाला बोदला, सेलों की ढाणी, ढूण्डा बेरा, छिन्दिलिया बेरा, गहलोतों के घर आदि सम्मलित होंगे।
9	9	रेल्वे लाईन पश्चिम कुनाराम, शेराराम चौधरी के प्लाट से दक्षिणी दिशा की ओर चलते हुए शांति बाल स्कूल लेते हुए बम्ब प्याऊ से दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए नगर पालिका भूमि पण्डित दीनदयाल आवासीय कॉलोनी में से पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए उतरी मकानात को सम्मलित करते हुए राणकी साटिया के घर तक, राणकी साटिया के घर से हेमाराम हरिजन घर होते हुए एफसीआई गोदाम से दक्षिणी दिशा में बढ़ते हुए भीयाराम मारोटिया का मकान, मारोटिया का बेरा सम्मलित करते हुए वापस मारोटियों के बेरे से उतर दिशा की ओर चलते हुए ओमजी चौहान मकान तक, ओमजी चौहान के मकान से रेल्वे पुलिया तक, रेल्वे पुलिया से पुनः कुनाराम, शेराराम मकान तक पूर्वी और पश्चिमी मकानात सम्मलित हैं जिसमें मारोटिया बेरा, साटिया बस्ती, ग्वारिया, देवासी, चौहान, मारोटिया बास, जाटों की बास, गहलोतों की बास, पारसमल का गोदाम इस वार्ड सीमा में सम्मलित होगी।
10	10	गोल प्याउ प्रदीप कलाल के मकान दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए गणपति चौराया, तक पूर्वी मकानात सम्मलित करते हुए पश्चिमी आबादी को छोड़ते हुए गणपति चौराया सलाम तैली की दुकानों पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए तैलियों की मस्जिद तक उतरी मकानात एवं आबादी क्षेत्र को सम्मलित करते हुए तैलियों की मस्जिद से तैलियों का मदरसा होते हुए उतरी दिशा की ओर बढ़ते हुए हाफीज गजदर मकान तक पश्चिमी मकानात को सम्मलित करते हुए प्रदीप कलाल के मकान तक दक्षिणी मकानात इस वार्ड की परिधि सम्मलित रहेगी। जिसमें कब्रिस्तान, पटवार भवन, चौगानिया जाव, कुम्हारों का बास, तैलियों का बास, सिलावटों का बास, खटीको का बास सम्मलित रहेंगे।
11	11	शकुर जुलाहा मकान से दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए गुलशन छीपा के मकान तक पूर्वी मकानात सम्मलित करते हुए पश्चिमी आबादी को छोड़ते हुए गुलशन छीपा के मकान से उतरी दिशा की ओर बढ़ते हुए हसलावों की बास होते

		हुए नाईयों के मन्दिर तक पश्चिमी मकानात नाईयों के मन्दिर से शकुर जुलाहा के मकान तक दक्षिणी मकानात, शकुर जुलाहा के मकान से उस्ता के मकान से घनश्याम साबू के मकान तक टीकमचंद सोनी के मकान तक उतरी मकानात टीकमचन्द सोनी मकान से उस्ता के मकान तक दक्षिणी मकानात इस वार्ड की सीमा की परिधी रहेगी। जिसमें नाईयों का मन्दिर, नाईयों की बगेची, निर्माणाधीन माहेश्वरी भवन सम्मलित रहेंगे।
12	12	साबीर राठौड़ की दुकान से पूर्वी की ओर चलते हुए जाबीर सिलावट दुकान तक दक्षिणी मकानात आबादी सम्मलित करते हुए जाबीर सिलावट दुकान से असलम रंगरेज के मकान होते हुए मीठालाल सोनी मकान तक दक्षिणी मकानात सम्मलित करते हुए उतरी मकानात को छोड़ते हुए, मीठालाल सोनी मकान से भैरूलाल चौधरी के मकान तक पश्चिमी आबादी सम्मलित रहेगी, भैरूलाल चौधरी के मकान के खेमराज कांकरिया मकान से पूर्वी दिशा चलते हुए जवरीलाल पटवा की दुकान तक दक्षिणी मकानात जवरीलाल पटवा की दुकान से वैद्य श्रीनिवास के मकान तक पश्चिमी मकानात सम्मलित हैं, वैद्य श्रीनिवास मकान से रामकिशोर भूतड़ा मकान तक उतरी मकानात खेमजी काकरिया मकान से भैरूलाल चौधरी मकान होते हुए पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए कादर तैली मकान तक कादर तैली मकान से साबीर राठौड़ दुकान उतरी मकानात इस वार्ड सीमा रहेगी। जिसमें माहेश्वरी भवन, पीपली बास, रामदेव मन्दिर, मीरा बाई मन्दिर, छीपो, तैलियों, सिलावटों की बास, नाईयों का बास सम्मलित रहेगी।
13	13	अस्तल के पास भारत टाकीज से दक्षिण की ओर चलते हुए नेशनल पब्लिक स्कूल को सम्मलित करते हुए पश्चिमी आबादी को छोड़ते हुए पूर्वी आबादी को सम्मलित करते हुए साबीर व्यापारी के मकान नुक्कड़ तक के पूर्वी मकानात सम्मलित रहेंगे, साबीर व्यापारी मकान से दालमील को पश्चिम की ओर छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए पूर्वी आबादी को सम्मलित करते हुए खेराज माली के मकान तक खेराज माली के मकान से जोगाराम का प्लोट जोगाराम प्लोट से उतर दिशा की ओर बढ़ते पूर्वी आबादी को छोड़ते हुए हनुमान गौशाला तक पश्चिमी आबादी सम्मलित रहेगी हनुमान गौशाला से उतरी और बढ़ते हुए नरपत पटेल की दुकान को सम्मलित करते हुए उतरी और चलते हुए मांगीलाल ग्वारियां की दुकान तक पश्चिमी मकानात सम्मलित रहेंगे मांगीलाल ग्वारियां की दुकान से कुम्हारों की बास होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हुए भारत टॉकीज तक दक्षिणी मकानात इस वार्ड सीमा की परिधी में रहेंगे। जिसमें कुम्हारों की बास, आदर्श नगर, सुभाष कालोनी, हनुमान गौशाला, राजपूत छात्रावास आदि शामिल हैं।
14	14	कटारियों प्लोट, शंकरजी खत्री के मकान से पूर्वी की ओर बढ़ते हुए लादूराम गहलोत के प्लाट तक उतरी मकानात को सम्मलित करते हुए जो रास्ता छोटूराम माली मकान तक जाता है, उसके पश्चिमी मकानात छोटूराम के मकान से रामचन्द साद मकान तक के उतरी मकानात रामचन्द साद मकान से रामदेव

		मन्दिर होते हुए राम-श्याम केमिकल तक पश्चिमी मकान, राम-श्याम केमिकल से मदन शर्मा डाक्टर तक पश्चिमी मकानात, मदन शर्मा मकान से शंकरजी खत्री मकान तक दक्षिणी मकान इस वार्ड की सीमा रहेगी, जिसमें नन्दनवन कॉलोनी, राजपूत कॉलोनी, मालियों की बस्ती सम्मिलित रहेगी।
15	15	दालमील से नगर पालिका की दुकानों तक पश्चिमी मकानात सम्मिलित करते हुए पूर्वी को छोड़ते हुए भीखजी चौहान के मकान तक भीरमजी चौहान के मकान से संस्कृत स्कूल को पूर्वी और छोड़ते हुए पश्चिमी आबादी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए फाटक वाला बेरा सम्मिलित करते हुए फाटक वाला बेरा से पश्चिम की ओर चलते हुए उतरी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए रेल्वे लाईन तक रेल्वे लाईन से उतरी और चलते हुए पानी की टंकी तक पूर्वी आबादी को सम्मिलित करते हुए बाबुलाल मारोटिया के मकान से विजय सर्कल को सम्मिलित करते हुए दालमील तक इस वार्ड सीमा की परिधी में रहेगी। जिसमें पुसाराम का खेत, जटियों लवारो का बास, मालियों की बस्ती, फाटक वाला बेरा, आदि सम्मिलित रहेंगे।
16	16	भंवरसिंह राजपुरोहित के मकान से दक्षिणी और चलते हुए रामद्वारा ताम्बोलिया बेरा, डीपीएस स्कूल, श्री शीला बाल स्कूल को बाईं ओर सम्मिलित करते हुए महेन्द्रजी के मकान तक महेन्द्रजी के मकान से पूर्व में मुड़कर सीधे चलते हुए घनश्याम, नवोड़ा बेरा आदि को सम्मिलित करते हुए गंगा सागर कांलोनी को दायी छोड़ते हुए सिलारी रोड़ तक यहां से पुनः उतर में चलते हुए बीएसएलएन ऑफिस, सिविल न्यायालय को छोड़ते हुए व पीएचईडी ऑफिस को छोड़ते हुए ओम श्री संत स्कूल, चिमनाबाड़ी को सम्मिलित करते हुए भंवरसिंह राजपुरोहित के मकान तक । जिसमें ताम्बोलिया बेरा, नवोड़ा बेरा आदि इस वार्ड में सम्मिलित रहेंगे।
17	17	सुगनाराम हरिजन के मकान दक्षिण में चलते हुये तेजाराम के मकान होते हुये शांतीलाल साद के मकान तक यहां से दक्षिण में चलते हुए संस्कृत स्कूल को शामिल करते हुए सीधे सीधे फाटक वाले बेरा को छोड़ते हुए, लालू बा के बेरे को छोड़ते हुए भोमाजी का बेरा तक यहां से नगर पालिका सीमा चलते चलते जालुबा का बेरा सम्मिलित करते हुए अन्नाराम बेरा सम्मिलित करते हुए हनुमान चौहान का मकान सम्मिलित करते हुए पुसाराम गांव गुरु के खेत तक यहां से पश्चिम में मुड़कर विजय एडवोकेट के मकान को सम्मिलित करते हुए कानजी कच्छावा के मकान को सम्मिलित करते हुये सुगनाराम हरिजन के मकान तक जिसमें भोमाजी का बेरा, संस्कृत स्कूल, राम सागर बेरा, अन्नाराम बेरा, जालुबा का बेरा आदि इस वार्ड में सम्मिलित रहेंगे।
18	18	भंवरसिंह राजपूत के खेत से सिलारी रोड़ होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हुए जे.डी. पब्लिक स्कूल आदि पश्चिमी आबादी को सम्मिलित करते हुए समराथल नगर, मलुक धाम, रामदीन विश्नोई का बेरा पीपाड़ शहर सरहद तक सम्पूर्ण

		<p>पश्चिमी आबादी, पीपाड़ शहर सरहद से पूर्वी की ओर मुड़ते हुए पुनः पीपाड़ शहर उत्तर की ओर चलते हुए कमिणीयां नाड़ा, खाती नाड़ा, कोठारी गौशाला आदि पूर्व आबादी सम्मिलित करते हुए विकास स्कूल व खटीको, ढोलियों, विश्नोईयों के मकानात को पूर्व की ओर छोड़ते हुए टेलीफोन एक्सचेंज तक पूर्व आबादी एवं मकानात सम्मिलित रहेंगें, टेलिफोन एक्सचेज से रामेश्वर आचार्य मकान एवं भंवरसिंह के खेत तक इस वार्ड सीमा की परिधी रहेगी। ।</p> <p>जिसमें सिलारी रोड़ की नई कॉलोनिया, कोठारी गौशाला, मलुक धाम, श्रीराम नगर, रामदीन विश्नोई का बेरा, समराथल नगर आदि सम्मिलित रहेंगें।</p>
19	19	<p>सुथारों की बास :- रामेश्वर गांव गुरु के मकान से दक्षिणी दिशा चलते हुए शंकरलाल वैष्णव के मकान तक के पश्चिमी मकानात, शंकरलाल जी मास्टर के मकान से अमरसिंह राजपूत के मकान से दक्षिणी दिशा में चलते हुए राम प्रिटिंग प्रेस तक के पश्चिमी मकानात राम प्रिटिंग प्रेस पश्चिमी दिशा में चलते हुए से माणकचंद सोनी के मकान तक के उतरी मकानात, माणकचंद सुनार मकान से उतरी दिशा चलते हुए अस्पताल को सम्मिलित करते हुए भंडारी के मकान तक पूर्वी मकानात भंडारी के दुकान के सामने शांतीलाल जी कवाड़ के मकान से पश्चिमी दिशा में चलते हुए लालजी मास्टर मकान के सामने से रामेश्वर मनिहार के मकान, रामेश्वर मनिहार के मकान से देवकिशन के मकान को सम्मिलित करते हुए नरसिंह मन्दिर तक नरसिंह मन्दिर को सम्मिलित करते हुए सामने रामनिवास चिण्डक के मकान तक रामनिवास चिण्डक के मकान से उतरी दिशा चलते हुए जगदीश सोनी की दुकान तक के पूर्वी मकानात जगदीश सोनी की दुकान से उतरी दिशा में चलते हुए सुनारों के माताजी का मन्दिर सम्मिलित करते हुए ओम जी सोनी के दुकान तक पूर्वी मकानात, ओमजी सोनी के दुकान से हस्तीमलजी दर्जी की दुकान तक दक्षिणी मकानात, हस्तीमलजी दर्जी दुकान से बोहरों की पोल होते हुए गजानन्द जी की हथाई तक गजानन्द जी हथाई से पूर्वी दिशा चलते हुए रामेश्वर गांव गुरु के मकान तक दक्षिणी व पूर्वी मकानात इस वार्ड सीमा की परिधी में रहेगी।</p> <p>जिसमें अस्पताल, पीपली बास, समदड़ियों की बास, दफ्तरीयों की बास, चोपाटा बाजार, बोहरों की पोल, काला भाटा, भेरूजी का मंदिर, नयापुरा, विष्णोईयों की बगेची शामिल है ।</p>
20	20	<p>सदर बाजार के उंकारजी भुतड़ा की दुकान से दक्षिण की चलते हुए जुलायों की बास होते हुए मुली बाई के मकान तक के पूर्वी मकानात, मूली बाई के मकान से पूर्वी दिशा चलते हुए जुगल चिण्डक के मकान होते हुए शीतला माता मंदिर तक के उतरी मकानात, शीतला माता मंदिर से सोनजी डीस वाले के प्लोट से दक्षिणी दिशा में बढ़ते हुए मदनजी नाई मकान तक के मदनजी नाई के मकान से अमोलकचंद दफ्तरी के मकान से मुड़ते हुए लालजी मास्टर के मकान को सम्मिलित करते हुए उतरी दिशा में बढ़ते हुए देवकिशन के मकान तक देव किशन</p>

		<p>के मकान को सम्मिलित करते हुए हीरालाल सोनी के मकान तक के पश्चिमी मकानात हीरालाल सोनी के मकान से मुड़ते हुए पुखराज सुनार के मकान तक पुखराज सोनी के मकान के सामने प्यारेलाल आर्य के मकान से उतरी दिशा में चलते हुए मजिस्द होते हुए सुरेन्द्र चौधरी की दुकान तक के पूर्व मकानात, सुरेन्द्र चौधरी के दुकान से पश्चिमी दिशा चलते हुए उंकारजी भुतड़ा की दुकान तक दक्षिणी मकानात इस वार्ड सीमा की परिधी रहेगी।</p> <p>जिसमें जुलायों की बास, मंडी का बास, शीतला माता मंदिर, दफ्तरीयों का बास, पीपली बास, भरावो की बास शामिल है।</p>
21	21	<p>साबीर तैली के मकान से दक्षिण दिशा बढ़ते हुए तैलियों का मदरसा होते हुए मजीद तैली के मकान तक के पश्चिमी मकानात मजीद तैली से पश्चिमी दिशा बढ़ते हुए नैनजी तैली मकान होते हुए रुकिया सिलावट दुकान तक उतरी मकानात रुकिया सिलावट की दुकान से सिलावटो की मस्जिद को सम्मिलित करते हुए सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल तक के उतरी मकानात, हायर स्कूल से घुमते हुए जलालुदीन पिजारा के दुकान तक जलालुदीन पिजारा की दुकान से पूर्वी दिशा चलते हुए मदरसा को सम्मिलित करते हुए साबीर तैली के मकान तक इस वार्ड सीमा की परिधी में रहेंगे।</p> <p>जिसमें तैलियों का बास, व्यापारियों की बास, महिला शौचालय, सिलावटों की बास, सिलावटों की मस्जिद, जुलाहो की बास, सीनियर स्कूल, मदरसा, शहीदों का चौक आदि शामिल है ।</p>
22	22	<p>व्यापारियों की बास गांछा का गोदाम से दक्षिण तरफ चलते हुए आचार्यों की बास होते हुए धनराज मोची की दुकान तक पूर्वी मकानात, धनराज मोची के मकान से पूर्वी चलते हुए जैबूनिशा सिलावट की दुकान तक उतरी मकानात, जैबूनिशा की दुकान से पूर्वी दिशा चलते हुए जामा मस्जिद होते हुए नंदू कटारिया की दुकान तक के उतरी मकानात, नंदू कटारिया की दुकान उतर दिशा की तरफ मुड़ते हुए गर्ल्स स्कूल होते हुए रामचंद्र मोची के मकान तक के दक्षिणी मकानात, रामचंद्र मोची की दुकान से उतर की तरफ सलाम तैली के मकान से जाजू के मकान के तक के उतरी मकानात जाजू के मकान से पश्चिमी दिशा होते हुए व्यापारियों की मस्जिद सम्मिलित करते हुए युसुफ फ्रूट गोदाम तक दक्षिणी मकानात, युसुफ फ्रूट गोदाम से पश्चिमी तरफ चलते हुए गांछा के गोदाम तक इस वार्ड सीमा की परिधी रहेगी।</p> <p>जिसमें व्यापारियों की बास व मस्जिद, कुम्हारों का बास, आचार्यों का बास, मोर्चीयों का बास, शहीदों का चौक, लवारो का बास, ढोली, डबगर की गली आदि शामिल है ।</p>
23	23	<p>तिलाराम चौकीदार मकान से दक्षिणी दिशा में चलते हुए उदयराज मुणोत (ओरिया) के मकान तक जाता है जिसके पश्चिमी मकानात उदयराज मुणोत के मकान से पश्चिमी दिशा बढ़ते हुए श्रीगोपाल खत्री अरोड़ा दुकान तक के उतरी</p>

		<p>मकानात श्रीगोपाल खत्री अरोड़ा दुकान से खैरादियों का बास होते हुए लालजी व्यापारी की दुकान तक लाल व्यापारी की दुकान पश्चिमी दिशा चलते हुए व्यापारियों की मस्जिद दक्षिणी दिशा में छोड़ते हुए आदम छीपा मकान तक उतरी मकानात आदम छीपा मकान से घुमते हुए पूर्वी दिशा में चलते हुए नगर पालिका कार्यालय होते हुए तिलाराम चौकीदार मकान तक दक्षिणी मकानात इस वार्ड सीमा की परिधी में सम्मलित रहेंगे।</p> <p>जिसमें धोबियों की पास, मंगल कार्यालय, खैरादियों का बास, श्रीमालियों की बास, मालियों की उगुणी हथाई, मालियों की बास, चौकीदारों की बास, मुन्दड़ों की बास, नगर पालिका कार्यालय सम्मलित रहेंगे।</p>
24	24	<p>मालियों की श्मशान घाट से अम्बालाल कबाड़ी की दुकान तक पूर्वी मकानात सम्मलित करते हुए अम्बालाल कबाड़ी दुकान से जो रास्ता माली मैला की तरफ जाता है, जिसमें हरिजनों के मौहल्ला, महिला शौचालय के सामने, जलाल पिंजारा की दुकान व मकान से जेठू जी छीपा मकान तक, जेठू जी छीपा मकान से निजाम ठठेरा मकान तक, निजाम ठठेरा दुकान के सामने कबूतरों का चौक, कबूतरों का चौक से जाजू की दुकान तक उतरी मकानात, जाजू की दुकान से काबरों की पोल का पूर्वी किनारा होते हुए बावड़ी दरवाजा होते हुए सब्जी मण्डी माली मैला होते हुए, बिजलीघर से पीछे नदी की तरफ बढ़ते हुए, नदी तक पश्चिमी आबादी, नदी व कल्याण जी की आखली होते हुए सार्वजनिक श्मशान घाट सम्मलित करते हुए नदी किनारे किनारे चलते मालियों का श्मशान घाट तक वार्ड की सीमा रहेगी, जिसमें माली मैला, होली धड़ा, बिजलीघर, काबरों की पोल, सैनिक स्कूल, महिला शौचालय होली धड़ा, महिला शौचालय हरिजन मौहल्ला, छीपा का मौहल्ला, मेघवालों की बास, दर्जीयों की बास सम्मलित रहेगी ।</p>
25	25	<p>जौहरीलाल पटवा के मकान से दक्षिण दिशा में चलते हुए इलाजी बाजार होते हुए कोट के सामने गंजानदजी के मंदिर से दर्जीयों के बास होते हुए नथमल वैष्णव की दुकान तक पश्चिमी मकानात, नथमल वैष्णव की दुकान से पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए सदर बाजार होते हुए द्वारकादास जी बजाज की दुकान तक उतरी मकानात, द्वारकादास बजाज की दुकान से घुमते हुए श्याम मुंदड़ा के मकान होते हुए आंनद भवन तक के दक्षिणी मकानात, आंनद भवन से उतरी दिशा में चलते हुए खेमजी कोठारी के मकान से उतर दिशा में चलते हुए राजपुरोहितो की पोल होते हुए केसुजी छीपा के मकान तक के पूर्वी मकानात, केसुजी छीपा के मकान से जौहरीलाल पटवा के मकान तक दक्षिणी मकानात इस वार्ड की सीमा की परिधी में रहेगी।</p> <p>जिसमें चण्डको की बास, हिन्दू छीपों की बास, पुरोहितों की बास, मुथों की बास, इलाजी बाजार, गजानंद जी मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, खत्रीयों का बास आदि शामिल है ।</p>

26	26	<p>काबरों की पोल के सामने युसुफ छीपा के मकान से जो दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सत्यनारायण के मकान तक के पूर्वी मकानात बाबुलाल सुथार के मकान से पश्चिमी दिशा बढ़ते हुए जगदीश नाई के मकान तक, जगदीश नाई के मकान से पूर्वी व उतरी दिशा बढ़ते हुए रामेश्वर गांव गुरु की दुकानां तक के उतरी मकानात, रामेश्वर गांव गुरु की दुकानों से उतरी दिशा में बढ़ते हुए कोट, दर्जियों की बास सम्मिलित करते हुए इलाजी बाजार होते हुए भंवरलाल मुथा की दुकान तक के पूर्वी मकानात सम्मिलित रहेंगे, भंवरलाल मुथा की दुकान से मुड़ते हुए पूर्वी दिशा में बढ़ते हुए युसुफ छीपा के मकान तक दक्षिणी मकानात इस वार्ड सीमा की परिधी रहेगी।</p> <p>जिसमें खातियों की बास, जोटो की हथाई, दर्जियों की बास, कोट, नागौरी बास, गांव गुरुओं की बास, ईलाजी बाजार, आदि शामिल है ।</p>
27	27	<p>अंबेडकर सर्किल व जलदाय विभाग से दक्षिणी और चलते हुए टेलीफोन एक्सचेंज तक पूर्वी मकानात सम्मिलित करते हुए टेलीफोन एक्सचेंज से पूर्वी की ओर मुड़ते हुए जो रास्ता इंद्रा कांलोनी को जाता है नारायण मोची के मकान तक समाज कल्याण बालिका छात्रावास को सम्मिलित क जाता रते हुए उतरी मकानात, व छात्रावास से दक्षिणी और मुड़ते हुए जो कच्चा रास्ता है भंवरजी साद के मकान से विकास विद्यालय तक जाता है विकास स्कूल व पूर्व आबादी को सम्मिलित करते हुए पश्चिम दिशा को छोड़ते हुए तेजाराम खटिक के मकान स्वरूपसिंह राजपूत मकान से नाई के मकान सम्मिलित करते हुए रामलाल विशनोई के मकान से पीपाड़ सरहद से पूर्व की ओर चलते हुए, खेजड़ला रोड़ पीपाड़ सरहद बकरा ठाठ तक बकरा ठाठ से उतरी और चलते हुए खेजड़ला रोड़ से उतरी मकान को छोड़ते हुए दक्षिणी मकानात व आबादी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जाटा मेघवाल समाज से पश्चिमी की ओर मुड़ते हुए पश्चिम की ओर आगे चलते चलते पुलिस थाना व नं. 1 स्कूल को उतरी और छोड़ते हुए दक्षिण की ओर पंचायत समिति कार्यालय, कन्या महाविद्यालय, बालिका स्कूल, जलदाय विभाग को सम्मिलित करते हुए अम्बेडकर सर्किल तक सभी दक्षिणी मकानात इस वार्ड सीमा की परिधी में रहेंगे</p> <p>जिसमें इंद्रा कांलोनी, रामदेव नगर, कन्या महाविद्यालय, बालिका विद्यालय, मुंसिफ कोर्ट, चन्दाराम मेघवाल, मुन्नालाल हंस, रेवदास का चबुतरा, जाणी साहब का मकान विकास स्कूल, सम्मिलित है ।</p>
28	28	<p>महावीर सर्किल सामने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नम्बर 1 स्कूल से खेजड़ला रोड़ पश्चिम दिशा में चलते हुए नाईयों की प्याऊ से उतरी और मुड़ते हुए नाईयों की प्याऊ से हिन्दू महासभा होते हुए ढोलियों की बास सम्मिलित करते हुए ढोलियों की बास से पश्चिम की ओर मुड़ते हुए राजपुतों की पोल तक पूर्वी मकानात राजपुतो की पोल से उतरी और मुड़ते हुए उतर दिशा में चलते हुए पुखजी माली के मकान तक व पुखजी माली के मकान से पूर्व की ओर मालियों</p>

		<p>की हथाई के अन्दर से सभी मकानात सम्मिलित करते हुए पूर्वी की और चलते चलते गजेन्द्र मिस्त्री के मकान को सम्मिलित करते हुए भविष्य स्कूल से दक्षिणी और मुड़ते हुए सूर्या हॉस्पिटल तक पश्चिमी मकानात सम्मिलित रहेंगे, सूर्या हॉस्पिटल से पूर्वी की और चलते हुए उपखण्ड कार्यालय को सम्मिलित करते हुए उपखण्ड कार्यालय से दक्षिणी और मुड़ते हुए वापस रा.उ.प्रा.वि.नं.1 तक पश्चिमी मकानात व आबादी क्षेत्र इस वार्ड में सीमा की परिधी में रहेगी ।</p> <p>जिसमें पुराना बस स्टेण्ड, हिन्दूसभा, पुनदास का मकान, जाट बोर्डिंग, सेंवगों की बगेची, राठोलाई नाडी, सूर्या हॉस्पिटल, मालियों की उगुणी हथाई आदि इस वार्ड में सम्मिलित रहेंगे।</p>
29	29	<p>नारायणराम जाट के मकान से अयुब खां सिंधी के मकान तक के पश्चिमी मकानात, अयुब खां के मकान से सोहनलाल सरगरा के मकान तक, सोहनलाल सरगरा के मकान से सुगनाराम सरगरा के मकान होते हुए शिवकाराम जटिया के मकान तक के दक्षिणी मकानात, शिवकाराम जटिया के मकान से गंगा माई के मंदिर होते हुए कनजी की राठी की दुकान तक के पश्चिमी मकानात, कनजी राठी की दुकान से सिंधीयों की मस्जिद होते हुए युसुफ अल्ला बैली के मकान से नारायणराम जाट के मकान तक जिसमें जटियों का बास, सरगरों का बास, जाटों की बास, सिंधीयों की बास, खातियों की बास, मेघवालों की बास आदि शामिल है ।</p>
30	30	<p>नानण रोड़ रामदीन जटिया के मकान से दक्षिणी और चलते हुए दीप जी आखली तक पूर्वी मकानात सम्मिलित करते हुए, दीपजी आखली से पूर्वी की और मुड़ते हुए एसडीएम ऑफिस के सामने गिदावतों के बेरे रास्ते तक पूर्वी आबादी गिदावतों के बेरे से होते हुए पश्चिमी सीमा होते हुए उतरी और चलते हुए वार्ड नं. 12 स्कूल नानण रोड़ तक, वार्ड नं. 12 स्कूल नानण रोड़ से पश्चिम की और बढ़ते हुए रामदीन जटिया मकान तक दक्षिणी मकानात सम्मिलित रहेगे इस वार्ड की सीमा में परिहारों का बेरा, गिदावतों का आधा बेरा, जयराम जी का घर, अमरजी गहलोत, देवजी सोलंकी के मकान व जटियो का बास व वार्ड नं. 12 स्कूल आदि शामिल है ।</p>
31	31	<p>अचलाराम जी के मकान से वार्ड नं. 12 की स्कूल रोड़ से दक्षिणी मकान होते हुए सोनजी के मकान जो रास्ता अबकाई ढाणी के समस्त उतरी मकान जो रास्ता कृष्णा कांलोनी को शामिल करते हुए कृष्णा कांलोनी से जो कच्चा रास्ता श्यामलाल जी सांखला के बेरे तक जाता है रावनिया जाने वाले रास्ते से पीपाड़ सरहद तक के उतरी मकानात उतरी दीक्षा से जो रास्ता पीपली नाडी होते हुए पीपाड़ सीमा तक पश्चिमी मकानात, पीपली नाडी से सीधी रोड़ अचलारामजी के मकान तक जाता है वो दक्षिणी मकान तक इस वार्ड की सीमा रहेगी जिसमें कृष्णा कांलोनी, श्यामलाल जी सांखला मकान, बालाराम की स्कूल, भाटियों का बेरा, छतरियों का बेरा, केवलजी की ढाणी, सदाजी की बाड़ी, आमलिया बेरा आदि</p>

		शामिल है ।
32	32	<p>सोनजी टाक के मकान होते हुए एसडीएम ऑफिस के सामने से पूर्वी तरफ दक्षिणी मकानात, एसडीएम ऑफिस के सामने से पुलिस थाना से हरिभजन हरिजन के मकान तक के पूर्वी मकानार्थ, हरिभजन के मकान से खेजड़ला रोड़ होते हुए रामपोल पेट्रोल पंप तक के उतरी मकानात, पेट्रोल पंप से माधुजी के बेरे होते हुए सीताराम सोलंकी के बेरे तक पश्चिमी मकान, रावणिया कच्चा रास्ता कृष्ण कांलोनी जो रास्ता आता है, कृष्णा कांलोनी को छोड़ते हुए समस्त दक्षिणी मकानात इसमें शामिल है । खेजड़ला रोड़ से जो रास्ता कृष्णा कांलोनी होते हुए रास्ता गिदावतों का बेरा तक के पूर्वी मकानात, गिदावतों के बेरे से अरजाराम जी के मकान होते हुए गिदावतों का बेरा पूर्वी, पश्चिमी व उतरी दीक्षा इसमें शामिल होगी। गिदावतों का बेरा की हथाई से सोनाराम टाक तक के मकान इस वार्ड की सीमा रहेगी जिसमें गिदावतों का बेरा आधा, चूना भटिया, नेहरू कांलोनी, ढोली, हरिजन, खेजड़ला रोड़, माधुबा चौधरी का बेरा, सीताराम सोलंकी का बेरा आदि शामिल है ।</p>
33	33	<p>कोसाणा मार्ग चैतवाला बेरा कालूजी के मकान से जो रास्ता लौड़ी बाड़ी से जयराम के मकान को जाता है । जयराम मकान से जो रास्ता नहर को जाता है लौड़ी बाड़ी से आमलिया बेरा लक्की स्कूल से पश्चिमी की ओर चलते हुए बालूजी सांखला के मकान दक्षिणी मकानात, बालूजी सांखला के मकान से दक्षिण की ओर मुड़ते हुए बंशीजी चक्की तक, बंशीजी चक्की से जोजरी नदी होते हुए माताजी के मंदिर मेघवालों के शमसान होते हुए सब्जी मंडी के पीछे से घीसूजी जटिया के पूर्व मकानात, घीसूजी जटियो की पोल से जटियों की बास होते हुए जटियों के बास नानण रोड़ से पूर्वी की ओर चलते हुए उतरी मकानात व आबादी क्षेत्र सम्मलित करते हुए घीसू जी भाटी का बेरा होते हुए चुन्नीलाल जी भाटी के मकान तक पीपाड़ सरहद तक उतरी मकानात सम्मलित रहेगें, चुन्नीलाल भाटी के मकान से चैतवाला बेरा तक इस वार्ड सीमा की परिधी में रहेगी।</p> <p>जिसमें चैतवाला बेरा, आमलिया बेरा, लौड़ी बाड़ी, पीपलिया बेरा, छतरिया वाला बेरा, भाटियों का बेरा, जोजरी का बेरा खोजा वाला सम्मलित होगें ।</p>
34	34	<p>पुरानी स्कूल उचियाड़ा बेरा से रामदीन मकान होते हुए जो रास्ता बाईपास रोड़ तक जाता है, इसके पूर्वी मकानात सम्मलित करते हुए बाईपास के दूसरी तरफ से ढगलाराम चौकीदार मकान से पीपाड़ सरहद तक घीसाराम टाक के बेरे बाणा नाडा, अशोक नगर, स्कूल, लक्ष्मणराम मकान, पूर्वी तरफ भलजी, नारायणजी टाक की ढाणी, को सम्मलित करते हुए, कोसाना मार्ग, लोड़ी बाड़ी होते हुए आमलिया बेरा छोड़ते हुए लक्की बाल स्कूल से जो सड़क पुरानी सरकारी स्कूल जाती है, इसके उतरी मकानात तथा पुनः पुरानी स्कूल तक इस वार्ड की सीमा रहेगी जिसमें अशोक नगर, नारायणजी नेता का बेरा, चौकीदारों की बास,</p>

		बाणा नाडा पीपाड़ सरहद तक उचियाड़ा बेरा, उपरला बेरा आदि सम्मलित रहेंगें।
35	35	पीडब्लूडी ऑफिस से दक्षिण की ओर चलते हुए अढूणिया बेरा, चेतनराम सोलंकी, नवोड़ा बेरा, गूदा वाला जाव को सम्मलित करते हुए नदी तक यहां से नदी के किनारे किनारे चलते हुए जोधपुर सड़क क्रॉस कर केके मार्केट को सम्मलित करते हुए बरसाती नाले तक, बरसाती नाले से उतर में चलते चलते हजरत पीर नौकशाह पीर दरगाह को सम्मलित करते हुए जीवणी बस्ती छोड़ते हुए स्कूल तक, स्कूल से पूर्व में मुड़ते हुए उचियाड़ा सड़क तक यहां से चौकीदार की ढाणी से बाईपास होते हुए बाई बस्ती शामिल करते हुए साथीन चौराया तक, साथीन चौराया से पीपाड़ काकड़ माट चलते हुए तहसील ऑफिस, नगर पालिका प्रस्तावित दीवारी को सम्मलित करते हुए गुरु हस्ती हॉस्पिटल को दायी ओर छोड़ते हुए पीडब्लूडी ऑफिस तक ।

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका, पीपाड़ शहर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।